

STL GLOBAL LIMITED

Plot No. 207-208, Sector-58, Faridabad Haryana (INDIA)
Tel.: 0129-4275900 - 4275930, Fax: 0129-4275999
E-mail: info@stl-global.com Website: www.stl-global.com
CIN: L51909DL1997PLC088667

Date: 07th September, 2020

From: STL Global Limited

Scrip Code: 532730

To

The Listing Compliance Department, BSE Limited, Phiroze Jeejeebhoy Towers, 25th Floor, Dalal Street, Mumbai 400 001, MH

Sub: Submission of copy of Newspaper Advertisement – Notice of 23rd Annual general meeting, Remote E-Voting and Book Closure information etc.

Dear Sir/Madam,

With reference to above captioned subject, please find enclosed herewith the copies of Newspaper Advertisements published on 07th September, 2020 in Veer Arjun (Hindi) circulating in Delhi and in Mint (English) in all the editions, both newspapers having electronic editions regarding Remote E-voting information for the 23rd Annual General Meeting of the Company in terms of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 40 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended from time to time and Regulations 44 and Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended from time to time.

Hope you find the same in order. Kindly take the above information on your record and acknowledge receipt.

Thanking you,

Yours truly,

For STL Global Limited

Manil Kr. Naga **
(Company Secretary)

Encl: As Above

प. बंगाल में सीमा पर बांग्लादेशी

तस्कर मारा गया : बीएसएफ

कोलकाता, (भाषा)। पश्चिम

बंगाल में भारत-बांग्लादेश सीमा पर

तस्करी की कोशिश को नाकाम करने

के लिए सीमा सुरक्षा बल ाबीएसएफा के

जवान द्वारा पम्प एक्शन गन से चलाई

गई गोली लगने से एक बांग्लादेशी

व्यक्ति की मौत हो गई। बल ने रविवार

को यह जानकारी दी। बल ने बताया

कि तस्कर द्वारा चापड ग़्स्थानीय भाषा में

दाहा से किए गए हमले में बीएसएफ का

एक जवान भी मामुली रूप से घायल

अरुण मिश्रा : कई बड़े मामलों और विवादों से जुड़ा सुप्रीम कोर्ट का प्रतिष्ठित नाम

नई दिल्ली, (भाषा)। हाल के वर्षों में उच्चतम न्यायालय के सबसे प्रभावी न्यायाधीशों की बात करें तो उनमें न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा का नाम प्रमुखता से आता है। वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण पर अदालत की अवमानना के मामले में एक रुपये के जुर्माने का मामला हो या उनके द्वारा दिए गए अन्य फैसले, उनका नाम अकसर मीडिया की सुर्खियों में रहा।

तीन सितंबर 1955 को वकीलों के परिवार में जन्मे न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा के पिता हरगोविंद मिश्रा जबलपुर उच्च न्यायालय में न्यायाधीश थे। वह दिसंबर 1977 में न्यायाधीश नियुक्त हुए थे और जुलाई 1982 में पद पर रहते उनका निधन हुआ था। अरुण मिश्रा के भाई विशाल मिश्रा

उनकी पुत्री भी दिल्ली उच्च न्यायालय में वकील हैं और उनके परिवार में कई रिश्तेदार नामी वकील हैं।

यहां यह जान लेना महत्वपूर्ण होगा कि कानुन के जानकारों के परिवार से ताल्लुक रखने के बावजूद न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा ने विज्ञान में स्नातकोत्तर स्तर की पढ़ाई की लेकिन उनकी स्वाभाविक रुचि कानून में ही थी, इसलिए उन्होंने बाद में कानून की पढ़ाई की। उन्होंने 1978 से 1999 के बीच मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में वकालत की। इस दौरान वह संवैधानिक, दीवानी, औद्योगिक, सेवा संबंधी और आपराधिक मामलों में प्रैक्टिस किया करते थे। 1998 में वह 43 वर्ष की आयु में बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बने और वकीलों मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में न्यायाधीश हैं। के हक में कई महत्वपूर्ण कार्य किए।



न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा

सुरक्षाबलों ने जम्मू कश्मीर के

बांदीपुरा जिले में नदी से दो स्थानीय

आतंकवादियों के शव बरामद किए

में सुरक्षाबलों ने एक नदी से दो स्थानीय आतंकवादियों

के शव बरामद किए हैं। ये आतंकवादी नियंत्रण रेखा

पार करने के प्रयास के दौरान नदी में डूब गए। पुलिस

के एक अधिकारी ने रविवार को बताया कि शनिवार

को उत्तरी कश्मीर के गुरेज सेक्टर में पुलिसकर्मियों

और सेना के जवानों ने किशनगंगा नदी से दो शव एवं

गोला-बारूद बरामद किया।उन्होंने बताया कि दोनों

शव चिकित्सा एवं कानूनी औपचारिकताओं के लिए

गुरेज अस्पताल ले जाए गए। अधिकारी ने कहा कि

चार ए के 47 मैगजीन, 115 ए के-47 राउंड, 17

पिस्तौल-9 एमएम राउंड, एक हथगोला, एक

वायरलेस सेट, चार कलाई घड़ियां, एक पाउच, एक

जैकेट, एक मैट्रक्सि शीट समेत अन्य सामग्री बरामद

हुई।उन्होंने बताया कि बरादम दस्तावेजों से पता चला

है कि उनमें से एक का नाम समीर अहमद डार था

डोगरीपुरा का रहने वाला था। अधिकारी ने कहा,

आतंकवादी की पहचान की जा रही है।

श्रीनगर, (भाषा)। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा जिले

उल्लेखनीय है कि लगभग 21 वर्ष की वकालत के दौरान वह मध्य प्रदेश में ग्वालियर के जीवाजी विश्वविद्यालय से जुड़े रहे और वहां के छात्रों को कानून पढ़ाते रहे।

पच्चीस अक्टूबर 1999 को वह दिन आया जब उन्हें मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया और इसके साथ ही उन्होंने माई लॉर्ड कहना छोड़ दिया तथा दूसरे वकील उन्हें माई लॉर्ड बुलाने लगे। वह 2010 में राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने और 2012 में वह कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने। 2014 में केन्द्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार बनने के बाद वह उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम की सिफारिश पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त किए गए। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा गत दो सितंबर को 65 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त हुए। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश पद पर रहने के दौरान वह कई बार विवादों और

संवेदनशील मामले उनकी अदालत में सूचीबद्ध किए जाने को लेकर भी कई बार सवाल उठाए गए और कुछ मामलों पर उनके फैसलों पर भी उंगली उठी।

न्यायाधीश के तौर पर अपने कार्यकाल के दौरान न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा ने हजारों मामलों में फैसला सुनाया। उनके कुछ फैसलों की आलोचना भी हुई और इसी साल फरवरी में उन्होंने सार्वजनिक तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा कर अपने आलोचकों को अपने खिलाफ बोलने का एक और अवसर दे दिया। इसमें दो राय नहीं कि न्याय की कर्सी पर बैठा व्यक्ति अपने विवेकानुसार न्यायसंगत फैसला सुनाने का

में प्रवेश के लिए नीट की तैयारी तेज की

हुआ है। जवान को कान के पास चोट प्रयास करता है। फैसला तो किसी एक के पक्ष लगी है। बीएसएफ ने एक बयान में में ही आएगा और ऐसे में दूसरे का असहमत फेनसेडिल की तस्करी करने आलोचनाओं के घेरे में रहे। कई अति जेईई-मेंस के बाद एनटीए ने चिकित्सा पाठ्यक्रम

नई दिल्ली, (भाषा)। इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए जेईई-मेंस कराने के बाद राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) ने चिकित्सा के स्नातक पाठयक्रम में प्रवेश के लिए 13 सितंबर को होने वाली परीक्षा के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं जिसमें 15 लाख से अधिक विद्यार्थियों ने पंजीकरण कराया है।

इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जेईई-मेंस) एक सितंबर को शुरू हुई थी और रविवार को यह संपन्न हो गई। कोविड-19 महामारी के मद्देनजर दो बार स्थगित करने के बाद यह अहम परीक्षा सितंबर में कराई जा रही है। एनटीए के अधिकारियों के मृताबिक जेईई-मेंस में कंप्यटर आधारित परीक्षा के विपरीत पांरपरिक रूप से कागज और कलम से होने वाली नीट के लिए देशभर में 15.97 लाख विद्यार्थियों ने और वह दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले के पंजीकरण कराया है। सामाजिक दूरी का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एनटीए ने पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार वह मई, 2018 से लापता राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) के लिए था और वह नियंत्रण रेखा पार करने के बाद प्रतिबंधित परीक्षा केंद्रों की संख्या 2,546 से बढाकर संगठन हिज्जुल मुजाहिदीन से जुड़ गया था। दूसरे 3,843 कर दी है। वहीं प्रत्येक कक्षा में पूर्व में 24 के स्थान पर केवल 12 विद्यार्थियों के ही

बैठने की व्यवस्था की जाएगी। एनटीए के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, सामाजिक दुरी सुनिश्चित करने के लिए विद्यार्थियों को परीक्षा कक्ष में अलग-अलग समय पर प्रवेश कराया जाएगा और इसी प्रकार निकासी होगी। परीक्षा केंद्रों के बाहर इंतजार के दौरान विद्यार्थियों को समाजिक दुरी के साथ खडे होने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा, विद्यार्थियों के लिए परामर्श जारी किया गया है जिसमें सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने के लिए क्या करें और क्या नहीं करें की जानकारी दी गई है। हमने राज्य सरकारों को स्थानीय स्तर पर विद्यार्थियों की आवाजाही में मदद करने के लिए पत्र लिखा है ताकि वे समय से परीक्षा केंद्र पहंच सकें। परीक्षा केंद्र के प्रवेश द्वारा पर और कक्ष में सेनिटाइजर की व्यवस्था, बार कोड के जरिये प्रवेश पत्र की जांच , परीक्षा केंद्रों की संख्या में वृद्धि, एक-एक सीट छोडकर बैठने की व्यवस्था, एक कमरे में कम छात्रों के बैठने की सुविधा और अलग-अलग समय पर प्रवेश और निकासी जैसे कुछ उपाय हैं जो एनटीए ने छात्रों की सुरक्षा के लिए किये हैं।

बांग्लादेशी तस्कर भारतीय क्षेत्र में मारा शनिवार रात को करीब 10 बजे तब हुई जब बीएसएफ की 24वीं बटालियन के जवान मालदा जिले के गोपालनगर चौकी के आसपास भारत-बांग्लादेश की सीमा पर तस्करी का पता लगाने के लिए गश्त कर रहे थे। बीएसएफ ने बताया कि सुरक्षा बाड के दोनों ओर 10 से 12 बांग्लादेशी और भारतीय तस्करों की गतिविधि दिखी जिसके बाद जवानों ने उन्हें ललकारा। भारतीय क्षेत्र में मौजूद तस्कर सुरक्षा दीवार पर फेनसेडिल की बोतलें फेंक

अर्थव्यवस्था की स्थिति के लिए निर्मला

ईश्वर को दोष दे रही हैं : राउत

मुंबई, (भाषा)। शिवसेना सांसद संजय राउत ने रविवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर आरोप लगाया कि देश की अर्थव्यवस्था में गिरावट के लिए वह ईश्वर को दोष दे रही हैं। शिवसेना के मुखपत्र सामना में अपने साप्ताहिक आलेख में राउत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी मुद्दों पर बात करते हैं. लेकिन गिरती अर्थव्यवस्था और संबंधित मद्दों पर चर्चा से इनकार कर देते हैं। सीतारमण ने पिछले महीने कहा था कि अर्थव्यवस्था को कोविड-19 महामारी के कारण नुकसान पहुंचा है, जो एक दैवीय आपदा है तथा वर्तमान वित्तीय स्थिति पर दबाव इसके कारण और बढ़ेगा। इसके जवाब में राउत ने लिखा, जब भगवान को ही दोषी करार दे दिया जाए तो फिर मुकदमा किस अदालत में चल सकता है? नोटबंदी से लेकर लॉकडाउन तक, अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है। लेकिन केंद्रीय वित्त मंत्री इसके लिए सीधे-सीधे ईश्वर को दोष दे रही हैं। यह हिंदुत्व का अपमान है। यह किस तरह का हिंदुत्व है? राउत ने कहा कि मंत्री की टिप्पणियां उस भारत के लिए उपयुक्त नहीं बैठर्ती जो अपने आप को उभरती आर्थिक महाशक्ति बताता है। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था कोविड-19 महामारी के पहले से लडखडा रही थी। राउत ने कहा, वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में जीडीपी में 23.9 फीसदी की गिरावट आई और इसकी वजह मानवीय गलती एवं लापरवाह रवैया है। राउत ने लिखा, कोरोना वायरस महामारी और कमजोर अर्थव्यवस्था ईश्वर की इच्छा है तो फिर सरकार और सेना की जरूरत ही क्या

सरकार की देश के 69,000 पेट्रोल पंपों पर ईवी चार्जिंग कियोस्क लगाने की योजना

नई दिल्ली, (भाषा)। सरकार देश के करीब 69,000 पेट्रोल पंपों पर कम से कम एक इलेक्ट्रकि वाहन (ईवी) चार्जिंग कियोस्क लगाने पर विचार कर रही है। इस कदम से देश में बिजलीचालित बाहनों की मांग को पोत्साहन मिलने

इसके अलावा सरकार कंपनियों के स्वामित्व. कंपनियों के परिचालन वाले (सीओसीओ) तथा सरकारी रिफाइनरी कंपनियों के सभी पेट्रोल पंपों पर ईवी चार्जिंग कियोस्क को अनिवार्य करने पर भी विचार कर रही है। इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग ढांचे पर समीक्षा बैठक के दौरान बिजली मंत्री आर के सिंह ने पेटोलियम मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों को सझाव दिया कि वे अपने प्रशासनिक नियंत्रण के तहत आने वाली पेट्रोलियम विपणन कंपनियों को सभी सीओसीओ पेट्रोल पंपों पर चार्जिंग कियोस्क लगाने का आदेश जारी कर सकते हैं। एक सूत्र ने यह जानकारी देते हुए कहा कि अन्य फ्रेंचाइजी पेट्रोल पंप परिचालकों को अपने ईंधन स्टेशनों पर कम से कम एक चार्जिंग कियोस्क लगाने की सलाह दी जा सकती है। सूत्र ने कहा कि इससे देश के सभी पेट्रोल पंपों पर ईवी चार्जिंग सुविधा लगाई जा सकेगी। पेट्रोलियम मंत्रालय के नए दिशानिर्देशों

नई दिल्ली, (भाषा)। पूर्व केंद्रीय

वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने मांग को

प्रोत्साहित करने और देश की

अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने में

मदद करने के लिये सरकार को

अधिक उधार लेने का रविवार को

सुझाव दिया। वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने धन

जुटाने के कुछ उपाय भी सुझाये,

जिनमें एफ आरबीएम मानदंडों में ढील,

विनिवेश में तेजी और वैश्विक बैंकों से

धन उधार लेना शामिल

है।अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने

के उपायों के तहत, उन्होंने राज्यों की

का भुगतान करने के अलावा, 50

मांग बढाने, अर्थव्यवस्था को सुधारने

के लिए लें अधिक कर्ज : चिदंबरम

और बुनियादी ढांचे पर खर्च बढ़ाने की

मांग की।उन्होंने ट्वीट किया, मांग व

खपत को प्रोत्साहित करने और

अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के

लिये कुछ ऐसे ठोस कदम उठाये जा

सकते हैं, सबसे गरीब 50 प्रतिशत

परिवारों को कुछ नकदी हस्तांतरित

करें। ऐसे सभी परिवारों को खाद्यान

के अनुसार सभी नए पेट्रोल पंपों पर कम से कम एक वैकल्पिक ईंधन का विकल्प अनिवार्य है। सूत्र ने कहा, वैकल्पिक ईंधन के तहत ज्यादातर नए पेट्रोल पंप इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग सुविधा के विकल्प को चुन रहे हैं। यदि मौजूदा पेट्रोल पंपों पर भी ईवी चार्जिंग कियोस्क लग जाता है, तो इससे देश में बिजलीचालित वाहनों को प्रोत्साहन दिया जा सकेगा। उद्योग के अनुमान के अनुसार देश में करीब 69,000 पेट्रोल पंप हैं। सभी पेट्रोल पंपों पर ईवी चार्जिंग सुविधा से इलेक्ट्रिक वाहनों को जबर्दस्त प्रोत्साहन मिलेगा। अभी चार्जिंग सुविधा के अभाव में लोग इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने से कतराते हैं। बिजली मंत्रालय ने दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु, वडोदरा ओर भोपाल में ईवी चार्जिंग ढांचा लगाने की योजना बनाई है। इसके अलावा मंत्रालय का इरादा राष्ट्रीय राजमार्गों पर भी ईवी चार्जिंग ढांचा लगाने का है। इससे लोग बिजलीचालित वाहन खरीदने को प्रोत्साहित होंगे। सूत्र ने कहा, मंत्री का मानना है कि किसी शहर में दो या तीन चार्जिंग स्टेशन लगाना पैसे की बर्बादी होगा। केंद्र सरकार दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन को पूरी तरह बिजलीचालित करने की तैयारी कर रही है।

प्रतिबंधित खांसी की बरामद, एक गिरफ्तार

कोलकाता, (भाषा) । सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) ने पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में भारत-बांग्लादेश सीमा के पास से प्रतिबंधित दवा फेंसिडाइल कफ सिरप (खांसी की दवा) की।,200 बोतलें बरामद की और इस संबंध में एक तस्कर को गिरफ्तार किया। एक अधिकारी ने शनिवार को दें, जिन्हें इसकी आवश्यकता है। यह जानकारी दी। आरोपी खांसी की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर खर्च दवा की बोतलों की तस्करी कर बढ़ायें। खाद्यान्न भंडार का वस्तु के बांग्लादेश ले जाने की कोशिश कर रूप में मजदूरी भुगतान में उपयोग रहा था जब उसे बीएसएफ कर्मियों ने करें। बड़े सार्वजिनक निर्माण कार्य धर दबोचा। एक अधिकारी ने कहा. शुरू करें। बैंकों का पुनर्पृजीकरण करें मालदा जिले में नवादा सीमा चौकी पर राज्यों की जीएसटी क्षतिपूर्ति का को फेंसिडाइल की सौ बोतलों और

संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दवा की 1,200 बोतलें दिलाने वाले केशवानंद भारती का निधन

दिलाने वाले संत केशवानंद भारती का रविवार को यहां निधन हो गया।पुलिस ने बताया कि केरल निवासी संत केशवानंद भारती श्रीपदगवरु का इदानीर मठ में उम्र संबंधी बीमारियों की वजह से 79 साल की उम्र में निधन हो गया।पुलिस ने कहा, हमें मिली सूचना के मुताबिक रविवार तड़के करीब तीन बजकर 30 मिनट पर उनका निधन हुआ। उल्लेखनीय है कि चार दशक पहले भारती ने केरल भूमि सुधार कानून को चुनौती दी थी जिसपर सुनवाई करते हुए उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया और यह फैसला शीर्ष अदालत की अब तक सबसे बड़ी पीठ ने दिया था जिसमें 13 न्यायधीश शामिल थे।केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले पर 68 दिन तक सुनवाई हुई थी और अब तक उच्चतम न्यायालय में सबसे अधिक समय तक किसी मुकदमे पर चली सुनवाई के मामले में यह शीर्ष पर है। इस मामले की सुनवाई 31 अक्टूबर ताकि वे अधिक उधार दे सकें और तैनात जवानों ने एक भारतीय तस्कर 1972 को शुरू हुई और 23 मार्च 1973 को सुनवाई पूरी हुई। भारतीय संवैधानिक कानून में इस मामले की सबसे अधिक

कासरगोड, (भाषा)। संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत

नगार्लेड में करीब डेढ़ करोड की अफीम

जब्त, चार गिरफ्तार कोहिमा, (भाषा)। नगालैंड में

सुरक्षाबलों ने करीब 1.44 करोड़ मूल्य की अफीम बरामद कर इसकी तस्करी के आरोप में चार लोगों को गिरफ्तार

इस संबंध में एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि खुफिया सूचना मिलने पर असम राइफल्स ने पिपहेमा में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-29 पर दो ट्रकों को रोका जिनमें वियतनामी अफीम की 120 बोरियां लदी थीं।

असम राइफल्स के जनसंपर्क अधिकारी एवं महानिरीक्षक (उत्तर) संजीव सेठी ने बताया कि गिरफ्तार व्यक्तियों और जब्त मादक पदार्थ को सीमा शुल्क संबंधी निषेधात्मक प्रभाग

फ्रेंचाइजी गिरोह की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर कर कथित फ्रेंचाइजी गिरोह की कई एजेंसियों से जांच कराये जाने का अनुरोध किया गया है। यह याचिका 38 लोगों ने दायर की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि उनके साथ वेस्टलैंड ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड ने ठगी की, जिसने फर्जी कंपनी हाइपर सुपरमार्केट, हाइपर मार्ट आदि बनाई थी। याचिका में धन शोधन और इसके निदेशकों एवं लाभान्वितों द्वारा काला धन जमा करने सहित विभिन्न अपराधों की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो , प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) या एक विशेष जांच टीम (एसआईटी) द्वारा कराये जाने का अनुरोध किया गया है। याचिका में आरोप

y clients Shri Varinder Singh S/o Late Shri Tarloch

gh and Smt. Satnam Kaur W/o Sh. Varinder Sin oth R/o House No. 550, (mastatil No. 53, Khasra No. 2, Village-Deoli) a.k.a Sainik Farms, New Delhi

0062 have disowned and severed all thei nections/ties with their son namely Mr Shaminde ingh and their daughter-in-law namely Mrs. Sukhr awhney W/o Mr. Shaminder Singh due to the

sponsible deeds misconduct & misbehavior towar

clients and both of them have been living senarate

m my clients. Therefore, My clients

का आश्वासन दिया तथा 500 निवेशकों को आकर्षित किया। याचिका के मुताबिक कंपनी लॉकडाउन के दौरान भुगतान कर पाने में नाकाम रही और उसने मई में भेजे अपने ई-मेल में कहा कि वह समझौते में उल्लेखित एक विशेष प्रावधान को लागू कर रहा है, जो अन्बंध को पूरा करने से उसे राहत देता है। याचिका में कहा गया है, इससे व्यापक नकसान हुआ क्योंकि एक सनियोजित साजिश के तहत निदेशकों, साझेदारों और कर्मचारियों ने याचिकाकर्ताओं के साथ धोखाधड़ी की तथा बेईमानी कर उन्हें उनकी गाढ़ी कमाई देने के लिये प्रेरित किया। गौरतलब है कि फ्रेंचाइजी धोखाधडी के सिलसिले में उत्तर प्रदेश के नोएडा में एक व्यक्ति को गिरफ्तार

भीमा कोरेगांव मामले से कोई

संबंध नहीं, एनआईए परेशान

करने की कोशिश कर रही है: रे

आईआईएसईआर-कोलकाता के

प्रोफेसर पार्थसारथी रे ने रविवार को

कहा कि उनका 2018 में भीमा

कोरेगांव में हुई हिंसा से कोई लेना-देना

फ्रेंचाइजी फीस ली और कुछ खास रकम मिलने

धारा-377 को निरस्त करने के दो साल बाद भी एलजीबीटी समुदाय समाज के पूर्वाग्रहों से लड़ रहा

नई दिल्ली, (भाषा)। ठूषभ सिंह छह सितंबर 2018 के दिन को याद करते हैं जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। दो साल पहले इसी दिन उच्चतम न्यायालय ने समलैंगिक संबंधों को अपराध करार देने वाली धारा-377 को निरस्त कर दिया था। उसी दिन सिंह ने अपने माता-पिता को अपनी यौन रुचि की जानकारी दी थी।

उन्होंने कहा, मेरे जेहन में यह बात थी कि देश की शीर्ष अदालत भी मानती है कि मैं अपराधी नहीं हूं और इसने मुझे बाहर निकलकर अपने माता-पिता को अपनी यौन रुचि के बारे में बताने का आत्मविश्वास दिया। उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद सिंह कहते हैं कि वह इसे अपना दूसरा जन्मदिन मानते हैं जब उनका दोबारा ऐसे व्यक्ति के तौर पर जन्म हुआ जो अधिक स्वतंत्र और आत्मविश्वास से लबरेज है और सुकून में है। मुंबई में प्रौद्योगिकी के पेशवर सिंह ने कहा, यह पहला कदम है और मेरा मानना है कि अगले कदम का समय आ गया है। समाज की मानसिकता में हमारे प्रति अब भी असमानता है, चाहे फिर वह विरासत कानून के मामले में हो या फिर सेरोगेसी कानून हो। अभी हमें बहत लंबा रास्ता तय करना है। हालांकि. पेशे से इंटीरियर डिजाइनर स्नैना (बदला हुआ नाम) कहती हैं कि इस फैसले से उनके जीवन में खास बदलाव नहीं आया है। उन्होंने कहा, सार्वजनिक रूप से मैं अपनी पहचान जाहिर नहीं कर सकती क्योंकि समाज द्वारा स्वीकार करना

मैं मध्यम वर्गीय परिवार से आती हूं, जहां पर समलैंगिकता के बारे में चर्चा करने की भी मनाही है। इस फैसले ने हमारे लिए यह अच्छा किया कि कम से कम हम अपराधी नहीं माने जाते. लेकिन समाज की मानसिकता वही है। उल्लेखनीय है कि उच्चतम न्यायालय ने छह सितंबर 2018 को ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए सर्वसम्मति से भारतीय दंड संहिता की धारा-377 के कई हिस्सों को रद्द करते हुए कहा था कि यह संविधान में मिले समानता और सम्मान के अधिकार का हनन करता है। धारा-377 के तहत कथित अप्राकृतिक यौन संबंध स्थापित करने पर उम्र कैद की सजा का प्रावधान था।

कोविड-19 से होने वाली मौतों की कमी लाने के लिए केंद्रीय टीमें जाएंगी पंजाब और चंडीगढ

नई दिल्ली, (भाषा)। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने पंजाब और चंडीगढ में कोविड-19 महामारी की मृत्युदर घटाने के वास्ते नियंत्रण, निगरानी, परीक्षण और मरीजों के प्रभावी चिकित्सा प्रबंधन के लिए जनस्वास्थ्य उपायों को मजबूत करने में वहां के प्रशासनों को सहयोग पहुंचाने लिए केंद्रीय दल तैनात करने का निर्णय लिया है।पंजाब में कोविड-19 संक्रमण के मामले 61,527 तक पहुंच चुके हैं जिनमें फिलहाल 15,870 मरीजों का उपचार चल रहा है। राज्य में महामारी से 1808 लोगों की जान जा चुकी है।मंत्रालय ने कहा, राज्य में प्रति दस लाख पर जांच 37,546 है (राष्ट्रीय औसत प्रति दस लाख पर 34593.1 है।).... चंडीगढ़ में फिलहाल 2140 मरीज उपचाराधीन हैं जबिक शहर में अबतक इसके 5502 मामले सामने आए। यहां प्रति दस लाख पर जांच 38,054 है और संक्रामण दर 11.99 फीसद है।मंत्रालय ने कहा, उच्च स्तरीय दल राज्य और केंद्रशासित प्रदेश को नियंत्रण, निगरानी, परीक्षण और मरीजों के प्रभावी चिकित्सा प्रबंधन के लिए जनस्वास्थ्य उपायों को मजबूत करने में सहयोग करेंगे ताकि मृत्यु दर घटे और जिंदगियां बचायी जा सकें। इसने यह भी कहा, वे समय से बीमारी का पता लगाने और उसके बाद के जरूरी कदमों से जुड़ी

केरल में एंबुलेंस चालक ने किया कोविड-19 मरीज का यौन उत्पीडन

पथनमथिटटा. (भाषा)। केरल के पथनममिट्टा में एंबुलेंस चालक ने 19 साल की एक कोविड-19 मरीज का कथित रूप से उस समय यौन उत्पीडन किया जब यवती को इलाज के लिए ले

जाया जा रहा था। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी।लडकी की मां/ने अस्पताल प्रशासन और पुल्रिस से शिकायत की जिसके आधार प्र एंबलेंस चालक नौफाल (29) को रविवार को हिरासत में ले लिया गया। कानिवू 108 एंबुलेंस सर्विसेज ने एक विज्ञप्ति में कहा कि आरोपी चालक को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। पलिस के अनसार यह घटना शनिवार को अरणमला में हुई।जांच अधिकारी प्रशासन को बताया और फिर अस्पताल प्रशासन ने हमें इसकी सचना दी। उसके बाद हमने उसे हिरासत में

था। वह और उसकी मां कोरोना वार्ऋरस से संक्रमित पायी गयी थीं। 111, Block No. 1, First Floor, Tribhuwan Comple

ले लिया। हम लड़की का (बाद में)

बयान लेंगे (क्योंकि वह अभी अपनी

आपबीती बताने की स्थिति में नहीं है।)

entioned son and his wife are debarred/disentitle edakhal from my clients movable and immovab इस लड़की को शनिवार को अड़र के operties and have no right whatsoever w.r.t. any clients will not be responsible for s/omissions of his above-noted son and his एक अस्पताल में भर्ती कराया गया Rajpal Kasana, Advocate, Chamber No. 618, Lawyers Block, Saket Courts Complex, New Delhi.

STL GLOBAL LIMITED CIN: L51909DL1997PLC088667

Ishwar Nagar, New Delhi - 110065 Tel: 011-26935829, Website: www.stl-global.com, Email: investors@stl-global.com NOTICE OF 23RDANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING AND BOOK

Notice is hereby given that the 23rd Annual General Meeting of the Com (23"AGM) will be convened on Tuesday, 29" September, 2020 at 11:00 A.M. IST through Video conferencing (VC)/Other Audio Visual Means (OAVM) Facility in ompliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and Rules framed thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015 read with the General Circular Nos. 14/2020, 17/2020 and 20/2020 dated 8th April 2020, 13th April 2020 and 5th May 2020 respectively, issued by the Ministry of Corporate May 2020 issued by the SEBI (SEBI Circular), without the physical presence of the

Notice is further given that pursuant to the Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations & ments) Regulations, 2015 and Section 91 of the Companies Act, 2013 ead with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Wednesday 23stSeptember, 2020 to Tuesday 29st September, 2020 (both days inclusive). The Company is pleased to provide e-voting facility to all the Shareholders for transacting he business at the above said AGM scheduled to be held on Tuesday, 29th September 2020. Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date (Record Date) i.e. 22[™]September, 2020 cast their vote electronically on the Business as set out in the Notice of the 23rdAGM through electronic voting system facility rovided by Link Intime India Private Limited (LIIPL) e-voting platform. All the members are

(a) The business as set out in the Notice of 23rd AGM shall be transacted by electronic voting

b) The voting through electronic means shall commence on 26th Sept A.M. (IST) and ends on 28th September, 2020 at 5:00 P.M. (IST);

 Remote Voting through electronic means shall not be allowed beyond 5:00 P.M. (IST) or 28th September, 2020; d) The Notice of 23rdAGM is available on the Company website at www.stl-global.com; and on the Stock Exchanges websites at NSE at www.nseindia.com and at BSE at

www.bseindia.com: e) For the process and manner of electronic voting, members may go through the instructions in the Notice of 23rd AGM or visit Link Intime India Private Limited InstaVote website https://instavote.linkintime.co.in and in case of any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and InstaVote e

For the process and manner of Attending 23st AGM of the Company, members may go through the instructions in the Notice of 23st AGM or visit Link Intime India Private Limitec Instameet website www.instameet.linkintime.co.in and in case of any queries or issues regarding attending 23rd AGM, you may write an email toinstameet@lin

Call us:-Tel: 022-49186175.

For STL GLOBAL LIMITED

Sanjiv Kumar Aggarwal

नहीं है और जांच एजेंसी उनको परेशान करने की कोशिश कर रही है, जैसा

अन्य बुद्धजीवियों के साथ किया गया हैं। भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में एनआईए ने वैज्ञानिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता रे को समन जारी कर पेश होने के लिए कहा है। रे ने यह भी कहा कि उनके खिलाफ कोई आरोप नहीं है, न ही वह कभी महाराष्ट्र के पुणे स्थित भीमा कोरेगांव स्मारक गए हैं। उन्होंने पीटीआई-भाषा से कहा, एजेंसी (एनआईए) ने सीआरपीसी की धारा 160 के तहत मामले में एक गवाह के तौर पर समन किया है। इस मामले से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि मैं कभी भीमा कोरेगांव नहीं गया हूं। मुझे तो मामले की जानकारी भी अखबार में खबर पढ़ने से मिली है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने रे को नोटिस जारी कर भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में 10 सितंबर को उसके मुंबई के दफ्तर में पेश होने को कहा है। रे परसीक्यूटिड प्रिजन्स सॉलिडेरिटी (पीपीएससी) की पश्चिम बंगाल इकाई के संयोजक भी हैं। यह मामला भीमा कोरेगांव युद्ध स्मारक के पास एक जनवरी 2018 को जातीय हिंसा से संबंधित है। रे ने कहा, यह मुझे तंग करने और धमकाने के हथकंडे के सिवा कुछ नहीं है, जैसा पूरे भारत के अन्य शिक्षाविदों एवं बुद्धजीवियों के साथ किया जा रहा है। मैं जैव चिकित्सा वैज्ञानिक हूं और कोविड-19 से निपटने की लडाई में शामिल हूं। उन्होंने कहा, ै मैं भी सताए गए और वंचितों के साथ लगातार खड़ा रहा हूं। यह बहुत दुर्भाग्य है कि मुझे इस अहम

समय में इस तरह से परेशान किया जा

असगोठत अर्थव्यवस्था

नई दिल्ली, (भाषा)। कांग्रेस नेता राहल गांधी ने रविवार को कहा कि राजग का माल एवं सेवा कर (जीएसटी) कोई कर प्रणाली नहीं, बल्कि भारत के गरीबों और छोटे एवं मझोले व्यवसायों पर हमला है। उन्होंने सभी से इसके खिलाफ खडे होने की अपील की।

गांधी ने जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स करार देते हुए कहा कि यह भारत की असंगठित अर्थव्यवस्था पर दूसरा बड़ा हमला है और यह पूरी तरह से विफल रहा है। उन्होंने पहले कहा था कि नोटबंदी अर्थव्यवस्था के अनौपचारिक क्षेत्र पर पहला हमला थी।अर्थव्यवस्था पर अपनी वीडियो श्रृंखला के क्रम में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि राजग सरकार ने ऐसे बडे उद्योगपतियों को ध्यान में रखते हुए कर में बदलाव करने के वास्ते आवश्यक साधन और संपर्क हैं।अपने विभिन्न सोशल मीडिया मंचों पर साझा की गई वीडियो श्रृंखला में गांधी ने जीएसटी पुरी तरह से विफल कहा रहा है। यह न केवल नाकाम साबित हुआ, बल्कि यह गरीबों और छोटे तथा मझोले उद्योगों पर हमला भी है। उन्होंने कहा, जीएसटी कोई कर प्रणाली नहीं है, यह तो भारत के गरीबों पर हमला है। यह छोटे दुकानदारों, छोटे एवं मझोले व्यवसायों, किसानों और श्रमिकों पर हमला है। गांधी ने कहा, हमें इस हमले को पहचानना होगा और इसके खिलाफ एकजुट होकर खडा होना होगा। गांधी ने करीब तीन मिनट का वीडियो ट्विटर पर साझा किया जिसमें



राहुल गांधी

मुख्य कारण है मोदी सरकार का गब्बर सिंह टैक्स (जीएसटी)। इसने बहुत नुकसान पहुंचाया है-लाखों छोटे व्यवसायों को, करोडों नौकरियों और युवाओं के भविष्य को और राज्यों के आर्थिक हालात को। जीएसटी का मतलब है आर्थिक विनाश।

अर्थव्यवस्था पर उनकी चार हिस्से की श्रृंखला का यह तीसरा हिस्सा है।गांधी और कांग्रेस ने

हैं। गौरतलब है कि भारत की आर्थिक विकास दर में अप्रैल से जून की तिमाही में रिकॉर्ड गिरावट आई है। इस अवधि में देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 23.9 प्रतिशत की बडी गिरावट दर्ज की गई है। गांधी ने दावा किया कि जीएसटी संप्रग सरकार का विचार था जिसका मतलब था, एक कर, न्यूनतम कर, मानक एवं सरल कर। उन्होंने आरोप लगाया कि राजग का जीएसटी बिलकुल अलग है। कर की चार अलग-अलग श्रेणियां, जो 28 फीसदी तक हैं, जटिल हैं और समझने के लिहाज से कठिन हैं।कांग्रेस नेता ने कहा कि छोटे और मझोले व्यवसाय यह कर अदा नहीं कर सकते हैं जबिक बडी कंपनियां इस काम को करने के लिए कुछ लेखाकारों को नौकरी पर रखकर इसका भुगतान

बडी ही आसानी से कर सकती हैं।उन्होंने पूछा, चार अलग-अलग दर क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार चाहती है कि जिनके पास साधन हैं, वे जीएसटी को सुगमता से बदल सकें और जिनके पास साधन नहीं हैं, वे इसके बारे में कुछ न कर सकें। गांधी ने कहा, साधन किसके पास हैं? भारत के 15-20 सबसे बडे उद्योगपतियों के पास। इसलिए वे जिस भी कर कानून में बदलाव कराना चाहते हैं, ऐसा वह जीएसटी के तले आसानी से कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि राजग के जीएसटी का परिणाम आज यह है कि भारत सरकार राज्यों को जीएसटी की राशि तक नहीं दे पा रही है और राज्य अपने कर्मचारियों एवं शिक्षकों को पैसा नहीं दे पा रहे हैं।इससे पहले राहल गांधी ने सीमा पर चीन के साथ बने हालात पर भी वीडियो श्रृंखला जारी की थी।

nual available athttps://instavote.linkintime.co.in, under He an email toenotices@linkintime.co.inor Call us :- Tel : 022 - 49186000. g) Members may also write to the Company at investors@stl-global.com By order of the Board

Place : Faridabad

Date: 05th September, 2020

DIN: 00227251

16cm X 08cm





RAMKRISHNA FORGINGS LIMITED

CIN No:L74210WB1981PLC034281 Regd. Office: 23 Circus Avenue, Kolkata - 700017 Phone: 033-4082 0900 / 71220900, Fax: 033-40820998,

email: info@ramkrishnaforgings.com, Website: www.ramkrishnaforgings.com

	for the Quarter ended June 30, 2020 '(All amounts in INR Lakhs, unless otherwise st			otherwise stated)	
SI.	1		Conso Quarter - Ended	olidated	Year Ended
No.	PARTICULARS	June 30, 2020 (Unaudited)	March 31, 2020 (Audited)	June 30, 2019 (Unaudited)	March 31, 2020 (Audited)
1_1	Total Income from Operations	11,456.74	24,390.96	40,101.89	1,22,326.73
2	Net Profit for the period before tax	(4,532.68)	(1,024.97)	2,061.09	1,479.23
3	Net Profit for the period after tax	(2,947.55)	(757.35)	1,379.27	969.55
4	Total Comprehensive Income for the period				
'	[Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax)		1	1	
\bigsqcup'	and other Comprehensive Income (after tax)]	(2,955.37)	(725.07)	1,357.42	936.32
5 Paid-up Equity Share Capital					
	(Face Value of ₹10/- per share)	3,217.99	3,260.77	3,260.74	3,260.77
6	6 Earnings Per Equity Share of ₹10/- each		'		
	- Basic (₹)	(9.11)**	(2.32)**	4.23**	2.97
- Diluted (₹) #		(9.11)**@	(2.32)**@	4.22**	2.97
	** not annualised		['		
	# after considering impact of ESOP				
	@ anti-dilutive in nature		1		

Notes:

- 1 These above results is an extract of the detailed format of Standalone and Consolidated Unaudited Financia Results for the guarter ended June 30, 2020 filed with the stock exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results are available at the company website i.e. www.ramkrishnaforgings.com and the website of BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited i.e. www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively.
- 2 The above Unaudited Consolidated Ind AS Financial Results have been reviewed by the Audit Committee and thereafter approved by the Board of Directors of the Company at their respective meetings held on September 4, 2020 and September 5, 2020 respectively. The Statutory Auditors have carried out a limited review of the Financial
- 3 Information on Standalone Unaudited Financial figures for the Quarter ended June 30, 2020

		Year Ended		
PARTICULARS	June 30, 2020 (Unaudited)	March 31, 2020 (Audited)	June 30, 2019 (Unaudited)	March 31, 2020 (Audited)
Revenue from Operation	11,646.39	22,646.13	37,959.73	1,11,783.62
Profit Before Tax	(4,135.11)	(869.07)	2,013.06	1,441.50
Profit After Tax	(2,647.19)	(626.64)	1,347.33	961.44
Total Comprehensive Income for the period [Comprising				
Profit/(Loss) for the period (after tax) and other				
Comprehensive Income (after tax)]	(2,653.93)	(590.15)	1,326.19	934.49
			On hehalf	of the Board

of Ramkrishna Forgings Limited Naresh Jalan (Managing Director) DIN: 00375462

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

PUBLIC NOTICE

Delhi Development Authority issued public notice vide Gazette notification S.O. 4585 (E) dated

21.12.2019 and also published in the news

papers for inviting objections / suggestions from the

public regarding proposed Amendments in Para 15.7.1 for inclusion of Stockists and

As per procedure all the objections / suggestions

received within the stipulated time period of

45 days will be placed before the Board of

Enquiry and Hearing(BoEH). The Board Hearing

will be held on 10.09.2020 (Thursday) from

10:30 A.M. onwards through online mode on

Any person who has filed objection/ suggestion and wants to present his/her oral submissions

before the Board, may join the online meeting on WebEx through the link and meeting

ID / Password shared with the individuals

on their provided E-mail ID to present his/

The proposed schedule for Board of Enquiry

& Hearing shall be available on the DDA

website i.e. www.dda.org.in (under head

'HOTLINKS' / 'PUBLIC NOTICES') on

07.09.2020. Concerned persons shall also

be informed through E-mail/SMS as per

Helpline Number for any assistance during

the online meeting: - 011-24698564

Contact Person: Sh. Suraj Singh, Asstt. Director (Systems),

Contact Person: Sh. Vishwas Bansal, Asstt. Director (Systems)

Please give your feedback on DDA Apps at > Google pla

Please visit DDA's website at www.dda.org.in or Dial Toll Free No. 1800110332

her views, as per the proposed schedule.

details provided in their representations.

"WebEx Online Video Conferencing".

dealers of medicines and drugs



STL GLOBAL LIMITED

Date: September 5, 2020

Place: Kolkata

CIN: L51909DL1997PLC088667 Unit No. 111, Block No. 1, First Floor, Tribhuwan Complex, Ishwar Nagar, New Delhi - 110065

Tel: 011-26935829, Website: www.stl-global.com, Email: investors@stl-global.com NOTICE OF 23^{RO}ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING AND BOOK CLOSURE INFORMATION

Place : Faridabad

Date : 05th September, 2020

Notice is hereby given that the 23rd Annual General Meeting of the Company (23"AGM) will be convened on Tuesday, 29th September, 2020 at 11:00 A.M. IST through Video conferencing (VC)/Other Audio Visual Means (OAVM) Facility in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and Rules framed thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with the General Circular Nos. 14/2020, 17/2020 and 20/2020 dated 8" April 2020, 13" April 2020 and 5" May 2020 respectively, issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA Circulars) and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated 12th May 2020 issued by the SEBI (SEBI Circular), without the physical presence of the Members at a common venue.

Notice is further given that pursuant to the Regulation 42 of SEBL (Listing Obligations 8 Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration)Rules, 2014, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Vednesday 23[™]September, 2020 to Tuesday 29th September, 2020 (both days inclusive). he Company is pleased to provide e-voting facility to all the Shareholders for transacting the business at the above said AGM scheduled to be held on Tuesday, 29" September, 2020. Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date (Record Date) i.e. 22rdSeptember, 2020 cast their vote electronically on the Business as set out in the Notice of the 23rdAGM through electronic voting system facility provided by Link Intime India Private Limited (LIIPL) e-voting platform. All the members are nformed that:

- a) The business as set out in the Notice of 23rd AGM shall be transacted by electronic voting only this year; b) The voting through electronic means shall commence on 26th September, 2020 at 9:00
- A.M. (IST) and ends on 28th September, 2020 at 5:00 P.M. (IST); c) Remote Voting through electronic means shall not be allowed beyond 5:00 P.M. (IST) or
- d) The Notice of 23rdAGM is available on the Company website at www.stl-global.com; and
- on the Stock Exchanges websites at NSE at www.nseindia.com and at BSE at www.bseindia.com; e) For the process and manner of electronic voting, members may go through the
- instructions in the Notice of 23rd AGM or visit Link Intime India Private Limited InstaVote website https://instavote.linkintime.co.in and in case of any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and InstaVote Voting manual available athttps://instavote.linkintime.co.in.under.Help.section.or.write an email toenotices@linkintime.co.inor Call us:-Tel: 022 - 49186000.
- f) For the process and manner of Attending 23rd AGM of the Company, members may go through the instructions in the Notice of 23rd AGM or visit Link Intime India Private Limited Instameet website www.instameet.linkintime.co.in and in case of any queries or issues regarding attending 23rd AGM, you may write an email toinstameet@linkintime.co.inor Call us:-Tel: 022-49186175.

RELIABLE VENTURES INDIA LIMITED

Regd Office : "Reliable House", A-6, Koh-e-fiza, Indore Road Bhopal-462001, Phone : 0755-2539592, Fax : 0755-2540442

CIN: L22354MP1992PLC007295

NOTICE TO THE SHAREHOLDERS OF 27th ANNUAL G

NOTICE is hereby given that the 27th Annual General Meeting (AGM) of of the RELIABLE VENTURES INDIA LIMITED will be held on Wednesday,

13, 2020 (collectively referred hereafter as "MCA Circulars" permitted holding of AGM through VC or OAVM, without the physical presence of Members at a common venue. In compliance with these MCA Circulars and the relevant provisions of the Companies Act.

2013 and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 the AGM of the members of the Company will be held through VC/OAVM.

The notice of AGM along with the Annual Report 2019-20 is being sent only by electronic mode to those members whose email addresses are registered with the company/Depositories in accordance with the Aforesaid MCA Circulars and

SEBI Circular dated May 12, 2020. Members may note that the Notice of the AGM and Annual Report 2019-20 will also be available on the Company's Website www.bseindia.com. Website of Mumbai Stock Exchange www.bseindia.com.

respectively members can attend and participate in the AGM through the VC/OAVM facility only. The instructions for joining the AGM are provided in the notice of AGM. Members attending the meeting through VC/OAVM shall be counted for the purpose of

The Company is providing remote e-voting facility to all its Members to cast their votes

on all resolutions set out in the Notice of the AGM. The Company has engaged CDSI to provide the facility of remote e-voting facility to the members through VC/OAVM Detailed procedure for remote e-voting/voting is provided in the Notice of the AGM.

The Register of Members and Share Transfer Books of the Company will rema

reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.

closed from 24th Sept., 2020 to 30th Sept., 2020, (both the days inclusive).

g) Members may also write to the Company at investors@stl-global.com

By order of the Board For STL GLOBAL LIMITED

Sanjiv Kumar Aggarwal (Whole Time Director)

DIN: 00227251



भारतीय रिज़र्व बैंक RESERVE BANK OF INDIA www.rbi.org.in

	Αl	JCTION OF S	TATE G	OVERNME	ENT SEC	URITIES
	The	following State Gove	ernments h	ave offered to	sell 3 to 20 ye	ears securities
	by w	ay of auction for an a	ggregate a	mount of ₹14,1	75.00 crore	(Face Value)
-	C	C4-4-	A	A dditional	T	Tunnan

NOTICE is hereby given that the 27th Annual General Meeting (AGM) of the members		AUCTION OF STATE GOVERNMENT SEC						
of the RELIABLE VENTURES INDIA LIMITED will be held on Wednesday, the 30th day of		The	following State Gov	ernments h	ave offered to	sell 3 to 20 ve		
September, at 4.30 PM through Video Conferencing ("VC")/ Other Audio Visual Means ("OAVM") to transact the business set out in the Notice of the AGM. In view of the continuing Govid-19 pandemic, the Ministry of Corporate Affairs (MCA) has vide its circular dated May 5, 2020 read with circulars dated April 08, 2020 and April			by way of auction for an aggregate amount of ₹14,175.00 crore (
		Sr. No.	State	Amount to be	Additional borrowing	Tenure (in years)		

			raised (₹ cr)	(Green Shoe) option (₹ Cr)		
	1.	Andhra Pradesh	1,000	-	16	Yield based
	١.	Aliulla i laucsii	1,000		18	Yield based
	2.	Chhattisgarh	700	-	3	Yield based
	3.	Goa	100	-	10	Yield based
	4.	Haryana	1,000	500	10	Yield based
	5.	Jammu and Kashmir	400	-	10	Yield based
	6.	Karnataka	1,000	-	10	Yield based
	0.	Namalaka	1,000	-	14	Yield based
ı	7.	Madhya Pradesh	1,000	-	13	Yield based
	8.	Maharashtra	1,000	-	4	Yield based
	0.	iviariarastilla	1,000	1,000	11	Yield based
	9.	Puducherry	125	-	3	Yield based
	10.	Punjab	1,100	-	Reissue	Price Based

In case you have not registered your email address with the Company/Depository and/or not updated please follow the below instructions to register your email ID fo obtaining Annual Report and login details for e-voting:

Physical Holdings: Send a request to the Registrar and Transfer Agents of the Company, Sharex Dynamic (India) private Limited at www.sharexindia.com providing folio No. Name of shareholders, scanned copy of the share certificate (front and back) PAN (Self-attested scanned copy of PAN card) AADHAR (Self-attested s Aadhar Card) for registering address.


Demat Holding: Please contact your Depository Participant (DP) and resister you email address as per the process advised by your DP.

For Reliable Ventures India Ltd DIRECTOR Place: Bhopal, Sept. 06, 2020

The following State Governments have offered to sell 3 to 20 years securities by way of auction for an aggregate amount of ₹14,175.00 crore (Face Value)						
Sr. No.	State Amount Additional to be raised (Green Shoe)		Tenure (in years)	Type of auction		
		(₹ cr)	option (₹ Cr)	16	Mindal banana	
1.	Andhra Pradesh	1,000	-		Yield based	
_		1,000	-	18	Yield based	
2.	Chhattisgarh	700	-	3	Yield based	
3.	Goa	100	-	10	Yield based	
4.	Haryana	1,000	500	10	Yield based	
5.	Jammu and Kashmir	400	-	10	Yield based	
6.	Karnataka	1,000	-	10	Yield based	
Ο.	Namalaka	1,000	-	14	Yield based	
7.	Madhya Pradesh	1,000	-	13	Yield based	
8.	Maharashtra	1,000	-	4	Yield based	
ο.	Mariarasrilla	1,000	1,000	11	Yield based	
9.	Puducherry	125	-	3	Yield based	
10.	Punjab	1,100	-	Reissue of 6.70% Punjab SDL 2040	Price Based	
11.	Rajasthan	750	-	10	Yield based	
12.	Uttar Pradesh	1,000	-	10	Yield based	
13.	West Bengal	2,000	-	20	Yield based	
	Total	14,175				

The auction will be conducted on Reserve Bank of India Core Banking Solution (E-Kuber) in multiple-price format on **September 08, 2020** (Tuesday). For further details please refer to RBI press release dated **September 04, 2020 (Friday)** on RBI website (<u>www.rbi.org.in</u>)

'Don't get cheated by E-mails/SMSs/Calls promising you mo



कार्यालय परियोजना यंत्री, संभाग क्र. 01, ग्वालियर (म.प्र.) फोन नं. : 0751-2426933, ई-मेल : mpphcgwaliorno1@gmail.com

प्रेस विज्ञप्ति

मध्यप्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम, संभाग क्र. 01, ग्वालियर द्वारा 'निर्माण कार्य (24+144) बहुमंजिला आवास गृह, दतिया, जिला दतिया (म.प.)' निविदा आमंत्रण सूचना क्रमांक 07/2020-21 (ऑनलाइन निविदा क्रमांक- 2020 MPPHC 105392 1, आमंत्रित की जाती हैं। विस्तृत निविदा सूचना एवं अन्य विवरण Portal: https:// www.mptenders.gov.in पर देखे जा सकते हैं।

परियोजना यंत्री म.प्र. माध्यम/98393/2020



Geographical Area Stretches Details as mentioned on IGL website Ghaziabad Other details are available on www.iglonline.net website. Interested applicants may go through the details available on website and apply online within 21 days.

GAYATRI BIOORGANICS LIMITED

Read,Office: B3. 3rd Floor, 6-3-1090,T.S.R.Towers Rajbhavan Road, Somajiguda, Hyderabad TG 500 082 IN E-mail: info@gayatribioorganics.com; Web:gayatribioorganics.com

CIN: L24110TG1991PLC013512

NOTICE

ANNUAL GENERAL MEETING, E VOTING AND BOOK CLOSURE

NOTICE is hereby given that the 29th Annual General Meeting of GAYATRI BIOORGANICS LIMITED, will be held on Tuesday, 29th September, 2020 at 3.00 p.m. through video conferencing (VC)/other Audio Visual means (OAVM) as per the guidelines issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) vide circulars dated April 8, 2020, May 5, 2020 and April 13, 2020 and SEBI circular dated May 12, 2020 in view of ongoing pandemic situation to transact the business as set out in the notice of AGM dated 31st August 2020.

As per the circulars above, the copy of the Annual report including the notice convening the AGM is sent to all the shareholders whose email IDS are registered with the Company/Depositories owing to the difficulties in dispatching of physical copies of the Annual Report. The same is also being made available on the Company's website at https://www.gayatribioorganics.com/. Those members whose email IDs are not registered, are requested to register their email with Registrar & Transfer Agent i.e., info@vccilindia.com by writing an email either to the RTA at info@vccilindia.com or the Company at info@gayatribioorganics.com carrying the following details or through their respective depositories: Name as registered with the RTA/Depository Address, email, copy of PAN, DPID/Client ID/Folio Number, Number of shares held In compliance with the above said circulars, Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015:

Shareholder will be provided with a facility to attend the AGM through VC/OAVM through the CDSL eVoting system. Shareholders may access the same at https://www.evotingindia.com under shareholders/ members login by using the remote e-voting credentials. The link for VC/OAVM will be available in shareholder/ members login where the EVSN of Company will be displayed

BOOK CLOSURE: Notice is also hereby given that pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from 21st September, 2020 to 30th September, 2020 (both days inclusive).

All Members are hereby informed that:

- >> The remote e-voting shall commence from 26th September, 2020 (9:00 A.M.) and ends on 28th September, 2020 (5.00 P.M.).
- The cut-off date for determining eligibility to vote shall be 21st September, 2020. Members attending the meeting, who have not casted their vote by remote e-
- voting, shall be eligible to exercise their right at the AGM Members who have casted their vote by remote e-voting may attend the AGM
- but shall not be entitled to cast their vote again at the AGM Persons whose name is recorded in the Register of Members or in the register of

Beneficial owners maintained by the Depositories as on Cut-off date i.e. 21stSeptember, 2020 only shall be entitled to avail the facility of voting at the AGM In case of any queries / grievances relating to e voting, members may contact M/s Venture Capital and Corporate Investment Pvt. Ltd., (RTA), H.No.12-10-167,

Bharatnagar, Hyderabad-500018. Tel: 040-23818472/ 23818476/2386, Fax: 040-23868024. Email: info@vccilindia.com or helpdesk.evoting@cdslindia.com o info@gayatribioorganics.com. By Order of the Board of Directors

For GAYATRI BIOORGANICS LIMITED C.V. Rayudu

Place: Hyderabad

CAMAC COMMERCIAL COMPANY LIMITED

(CIN: L70109DL1980PLC169318) Read Office: Ist Floor, Express Building, 9-10, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi - 110 002 Mobile No.: 7303495374 Email:camaccommercial@gmail.com Website: www.camaccommercial.com

NOTICE OF THE 40TH ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

- The 40th Annual General Meeting ("AGM") of the Company will be convened on Wednesday, September 30, 2020 at 10:15 a.m. IST through Video Conferencing ("VC") facility to transact the ordinary and special businesses, as set out in the notice of the 40th AGM, in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and rules framed thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with general read with General Circular No. 14/2020 dated April 08, 2020, General Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020 and General Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020, andother applicable circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars") and Circular no. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020 issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circular"), without the physical presence of the members at a common venue.
- In terms of MCA Circulars and SEBI Circulars the requirements of sending physical copy of the notice of AGM and Annual Report to the Members have been dispensed therefore the company is sending notice of its 40th AGM and Annual Reports 2019-20 to the members at their registered email id address, the aforesaid documents will also be available on the Company's website at www.camaccommercial.com and on the website of CDSL www.evotingindia.com and those Members holding shares in physical or demat form, whose email addresses are not registered with the Company are required to register their email addresses with Niche Technologies Private Limited (Registrar and Transfer Agent) by sending a request letter specifying Name, Folio Number. Number of Shares. Certificate Number etc. & account details at email ID $nichetech pl@nichetech pl.com\ on\ or\ before\ September\ 23,2020$
- Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date of September 23, 2020 may cast their vote electronically on the ordinary and special businesses, as set out in the Notice of the 40th AGM through electronic voting system ("remote e-voting") of Central Depository Services (India) Limited ("CDSL"). All the members are informed that:

be transacted through voting by electronic means;

- The ordinary and special business, as set out in the Notice of the 40th AGM, will
- (9:00 a.m.); Date and time of end of remote e-voting: September 29, 2020 (5.00 p.m.);

Date and time of commencement of remote e-voting: September 26, 2020

- The cut-off date, for determining the eligibility to vote through remote e-voting or through e-voting system during the 40th AGM is September 23, 2020;
- Any person, who becomes Member of the Company after sending the Notice of the 40th AGM by email and holding shares as on the cut-off date is August 21, 2020, may obtain the login ID and password by sending a request at camaccommercial@gmail.com
- Members may note that a) the remote e-voting module shall be disabled by CDSL after the aforesaid date and time for voting and once the vote on a resolution in cast by the Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently; b) the Members who have cast their vote by remote e-voting prior to AGM may participate in the AGM through VC facility but shall not be entitled to cast their vote again through the e-voting system during AGM; c) the members participating in the AGM and who had not cast their vote by remote e voting, shall be entitled to cast their vote through e-voting system during the AGM; d) a person whose name is recorded in the Register of Members as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting participating in the AGM through VC facility and e-voting during the AGM.
- In case of any queriesregarding attending AGM & e-Voting from the e-Voting System, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com, under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact Mr. Nitin Kunder (022- 23058738) or Mi Mehboob Lakhani (022-23058543) or Mr. Rakesh Dalvi (022-23058542).

The Register of Members and Share Transfers Books of the Company will remain closed from September 24, 2020 to September 30, 2020 (both days inclusive).

For Camac Commercial Company Limited

Surabhi Srivastava Date: September 05, 2020 Company Secretary Place: New Delhi

NOTICE TO THE MEMBERS - REGISTER EMAIL ADDRESS

In view of the outbreak of the COVID – 19 pandemic and restrictions imposed on the movement of people, the 41st Annual General Meeting ("AGM") of the Company is scheduled to be held on Wednesday, September 30, 2020 at 11:00 a.m. through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") in compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with General Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020, General Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020 and General Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020, issued by Ministry of Corporate Affairs "MCA") and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12 2020 issued by Securities and Exchange Board of India ("SEBI").

Pursuant to the aforesaid circulars, Notice of the AGM and Annual Report for the Financial Year 2019-20 ("collectively referred as Annual Report") will be sent only by e-mail to the members and other persons so entitled, whose email addresses are registered with the Company / Depository Participant ("DP"). The Annual Report will also be made available on the Company's website www.iindalsteelpower.com and on the website of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively.

Members holding shares in dematerialised mode, who have not registered/updated their email addresses with their DP are requested to register/update their email addresses with the relevant DP. Members holding shares in physical mode who have not registered/ updated their email address with the Company, are requested to register/update the same by writing to the Registrar and Share Transfer Agent ("RTA") of the Company at ramap@alankit.com with the signed request letter mentioning Name. Folio No.. Address with PIN code, Contact no., along with self-attested copy of PAN Card and Address proof (Aadhar Card/Voter ID Card/Passport). Accordingly, the members are requested to register/update the same for receiving the Annua Report.

The members can participate in the AGM though VC/OAVM facility only. Members can cast their votes on the business as set out in the Notice of the AGM through electronic voting system ("e-voting"). The Company will be providing remote e-voting facility and facility of e-voting during the AGM.

Members who hold shares in dematerialised mode, physical mode and members

who have not registered their email addresses can cast their votes, once the remote e-voting starts, by following the instructions given below: The shareholders should log on to the e-voting website

- www.evotingindia.com Now click on "Shareholders" module to cast your votes.
- Now Enter your User ID.

(DOB

- For CDSL: 16 digits beneficiary ID,
- For NSDL: 8 Character DP ID followed by 8 Digits Client ID,
 - Members holding shares in Physical Form should enter Folio Number registered with the Company

Alternatively, if you are registered for CDSL's EASI/EASIEST e-services, you can log-in at https://www.cdslindia.com from Login-Myeasi using your login credentials. Once you successfully log-in to CDSL's EASI/EASIEST e-services, click on e-Voting option and proceed directly to cast your vote

- Next enter the Image Verification as displayed and Click on Login.
- If you are holding shares in demat form and had logged on to www.evotingindia.com and voted on an earlier voting of any Company, then your existing password is to be used.
- If you are a first time user follow the steps given below

		For Shareholders holding shares in Demat Form and Physical Form
PAN		Enter your 10 digit alpha-numeric *PAN issued by Income Tax Department (Applicable for both dema shareholders as well as physical shareholders Shareholders who have not updated their PAN with the Company / Depository Participant are requested to contact Company / RTA.
	Dividend Bank Details OR Date of Birth	Enter the Dividend Bank Details or Date of Birth (ir dd/mm/yyyy format) as recorded in your dema account or in the company records in order to login.

If both the details are not recorded with the

depository or company please enter the member

- id / folio number in the Dividend Bank details field as mentioned in instruction (v). vii. After entering these details appropriately, click on "SUBMIT" tab.
- viii. Shareholders holding shares in physical form will then directly reach the Company selection screen. However, shareholders holding shares in demai form will now reach 'Password Creation' menu wherein they are required to mandatorily enter their login password in the new password field. Kindly note that this password is to be also used by the demat holders for voting for resolutions of any other company on which they are eligible to vote, provided that company opts for e-voting through CDSL platform. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.
- For shareholders holding shares in physical form, the details can be used only for e-voting on the resolutions contained in this Notice
- Click on the EVSN of Jindal Steel & Power Limited to vote On the voting page, you will see "RESOLUTION DESCRIPTION" and against the same the option "YES/NO" for voting. Select the option YES or NO as desired. The option YES implies that you assent to the Resolution and
- Click on the "RESOLUTIONS FILE LINK" if you wish to view the entire Resolution details

option NO implies that you dissent to the Resolution.

- xiii. After selecting the resolution you have decided to vote on, click on "SUBMIT". A confirmation box will be displayed. If you wish to confirm your vote, click on "OK", else to change your vote, click on "CANCEL" and accordingly modify your vote.
- xiv. Once you "CONFIRM" your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.
- xv. You can also take a print of the votes cast by clicking on "Click here to print option on the Voting page.
- xvi. If a demat account holder has forgotten the login password then Enter the User ID and the image verification code and click on Forgot Password & enter the details as prompted by the system. vii. Shareholders can also cast their vote using CDSL's mobile app "m-Voting".
- The m-Voting app can be downloaded from respective Store. Please follow the instructions as prompted by the mobile app while Remote Voting on your

n case of any guery, the members may contact us at registered office address email id given or contact our RTA.

For Jindal Steel & Power Limited

Date: September 6, 2020 Place: New Delhi

Anoop Singh Juneja Company Secretary & Compliance Officer

JINDAL STEEL & POWER LIMITED

(CIN: L27105HR1979PLC009913) Registered Office: O. P. Jindal Marg, Hisar –125005 (Haryana) Corporate Secretariat Office: Jindal Centre, Tower-A, 2nd Floor, Plot No.2, Sector-32, Gurugram -122001 (Haryana) Tel.: +91 124 6612000 | Email: jsplinfo@jindalsteel.com

Website: www.jindalsteelpower.com







